



भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़-160019



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 22.04.2016

विषय: पौंग बांध का लो लेवल निरीक्षण - अध्यक्ष, बीबीएमबी द्वारा
पावर टनल पी-2 का निरीक्षण



चण्डीगढ़ : श्री एस. के. शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी के कुशल मार्ग दर्शन में भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पौंग बांध का निम्नस्तर (लो लेवल) निरीक्षण आरम्भ किया गया। यह निरीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जब महाराणा प्रताप सागर (पौंग जलाशय) का जल स्तर 1300 फीट से कम हो जाता है। यह महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 18.4.2016 को शुरू किया गया है और इसके 6.5.2016 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।



श्री एस. के. शर्मा, अध्यक्ष, बीबीएमबी ने 21.4.2016 को पावर टनल पी-2 की अनुरक्षण गतिविधियों का निरीक्षण करने हेतु ब्यास बांध का दौरा किया। ये कार्य परियोजना इंजीनियरों द्वारा दिनांक 19.4.2016 को स्टिफ लेग डैरिक क्रेन की सहायता से बल्क हैड्स को नीचे करके शुरू किया गया है। अध्यक्ष बीबीएमबी ने ब्यास बांध स्थल के समिति कक्ष में बीबीएमबी के प्रतिष्ठित इंजीनियरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की और परियोजना इंजीनियरों को इस अतिविशाल कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। इस बैठक में श्री ए.के बाली, मुख्य अभियंता, भाखड़ा बांध, श्री किरपाल सिंह, मुख्य अभियंता, उत्पादन, श्री एन. एस देहल, मुख्य अभियंता, बीएसएल, श्री तरलोचन सिंह, मुख्य अभियंता, बांध सुरक्षा, श्री तरुण अग्रवाल, सचिव, बीबीएमबी, श्री अनिल कुमार धुल, निदेशक, एचपी-2 तथा बीबीएमबी परियोजनाओं के अन्य उच्चाधिकारियों/ अभियंताओं ने भाग लिया।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने टनल का निरीक्षण किया और इस कार्य को पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों में कार्यरत श्रमिकों एवं इंजीनियरों का मनोबल बढ़ाया।

टनल पी-2 पावर टनल का व्यास 23 फुट 11 इंच, 1045 फुट लम्बा स्टील लाइनर और आपातकालीन द्वार के अपस्ट्रीम 30 फुट व्यास का 745 फुट लम्बा कंक्रीट टनल है। इससे पहले यह कार्य वर्ष 2008 में किया गया था। इसके पश्चात् यह वर्ष 2013 में किया जाना था लेकिन टनल के निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए जलाशय में अपेक्षित निम्न स्तर न होने के कारण इस कार्य को शुरू नहीं किया जा सका।